



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 नवम्बर, 2022

कार्तिक 19, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 3485/9-1-2022-91परि0-22

लखनऊ, 10 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

प0आ10-980

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 11-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या 3079/9-1-2022-91परि0-22, दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 द्वारा गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात नगर पंचायत भलुअनी, जिला देवरिया के नगर निकाय क्षेत्र को नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित 14 वार्डों में विभाजित करती हैं। प्रत्येक वार्ड का विस्तार ऐसा होगा, जैसा उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उसके समक्ष उल्लिखित है।

अनुसूची

नगर पंचायत भलुअनी, जिला देवरिया

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमार्यें
1	2	3
1	अम्बेडकर नगर	उत्तर-जय प्रकाश नगर वार्ड दक्षिण-शिवाजी नगर वार्ड पूरब-नन्दा नगर वार्ड पश्चिम-देवरिया बरहज मार्ग
2	गौतमबुद्ध नगर	उत्तर-बजरभाखी दक्षिण-गांधीनगर वार्ड पूरब-सोनखरिका पश्चिम-आजाद नगर वार्ड

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें
1	2	3
3	आजाद नगर	उत्तर-परसिया ओझा दक्षिण-लोकमान्य तिलक नगर वार्ड पूरब-गौतमबुद्ध नगर पश्चिम-रामनगर वार्ड
4	भगत सिंह नगर	उत्तर-राजेन्द्र नगर वार्ड दक्षिण-गोविन्द बल्लभपन्त नगर वार्ड पूरब-गोविन्द बल्लभपन्त नगर वार्ड पश्चिम-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बांके बाबू नगर
5	शिवाजी नगर	उत्तर-गौंधी नगर वार्ड दक्षिण-शहीद रामपाल सिंह वार्ड पूरब-सोनाड़ी उसरा टोला पश्चिम-अम्बेडकर नगर वार्ड
6	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बांके बाबू नगर	उत्तर-राजेन्द्र नगर वार्ड दक्षिण-करमटार गंगा पूरब-भगत सिंह नगर वार्ड पश्चिम-बढ़या फूलवरिया
7	लोकमान्य तिलक नगर	उत्तर-रामनगर दक्षिण-जय प्रकाश नगर वार्ड पूरब-गौतमबुद्ध नगर वार्ड पश्चिम-राजेन्द्र नगर वार्ड
8	गोविन्द बल्लभ पंत नगर	उत्तर-जय प्रकाश नगर वार्ड दक्षिण-बादीपुर पूरब-देवरिया बरहज मार्ग पश्चिम-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बांके बाबू नगर
9	शहीद रामपाल सिंह नगर	उत्तर-शिवाजी नगर वार्ड दक्षिण-कुईचवर व करमटार शेर खों पूरब-सोनाड़ी उसरा टोला पश्चिम-देवरिया बरहज मार्ग
10	राम नगर	उत्तर-टेकुआ दक्षिण-लोकमान्य तिलक नगर वार्ड पूरब-आजाद नगर वार्ड पश्चिम-बरडीहा नथमल
11	राजेन्द्र नगर	उत्तर-कुईया दक्षिण-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बांके बाबू नगर वार्ड पूरब-लोकमान्य तिलक वार्ड पश्चिम-करौंदी व कुईया
12	जय प्रकाश नगर	उत्तर-लोकमान्य तिलक वार्ड दक्षिण-गोविन्द बल्लभ पंत नगर वार्ड पूरब-गांधी नगर वार्ड पश्चिम-भगत सिंह नगर वार्ड
13	गांधी नगर	उत्तर-गौतमबुद्ध नगर वार्ड दक्षिण-नंदा नगर वार्ड पूरब-बंजरिया पिपरा बडई पश्चिम-जय प्रकाश नगर वार्ड
14	नन्दा नगर	उत्तर-गांधी नगर वार्ड दक्षिण-शिवाजी नगर वार्ड पूरब-शिवाजी नगर वार्ड पश्चिम-अम्बेडकर नगर वार्ड

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3485/IX-1-2022-91Pari.-22, dated November 10, 2022:

No. 3485/IX-1-2022-91Pari.-22

Dated Lucknow, November 10, 2022

IN exercise of the powers under section 11-B of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), the Governor, after considering objections received in pursuance of the order published in the *Gazette vide* notification no. 3079/ IX-1-2022-91Pari.-22, dated October 17, 2022 under sub-section (2) of the said Section, is pleased to divide the Municipal Area of Nagar Panchayat Bhaluani district Deoria into 14 Wards as mentioned in Column-2 of the Schedule below. The extent of every Ward shall be such as mentioned against it in Column-3 of the said Schedule.

SCHEDULE

Nagar Panchayat Bhaluani, District Deoria

Ward no.	Name of Ward	Extent of Ward
1	2	3
1	Ambedkar Nagar	North- Jai Prakash Nagar Ward
		South- Shivaji Nagar Ward
		East- Nanda Nagar Ward
		West- Deoria Barhaj Road
2	Gautam Buddh Nagar	North-Bajarbhakhi
		South - Gandhi Nagar Ward
		East- Sonkharika
		West - Azad Nagar Ward
3	Azad Nagar	North- Parasia Ojha
		South- Lokmanya Tilak Nagar Ward
		East- Gautam Buddh Nagar
		West- Ramnagar Ward
4	Bhagat Singh Nagar	North- Rajendra Nagar Ward
		South- Govind Ballabh Pant Nagar Ward
		East- Govind Ballabh Pant Nagar Ward
		West- Swatantrata Sangram Senani Banke Babu Nagar Ward
5	Shivaji Nagar	North- Gandhi Nagar Ward
		South- Shaheed Rampal Singh Ward
		East- Sonadi Usra Tola
		West- Ambedkar Nagar Ward
6	Swatantrata Sangram Senani Banke Babu Nagar	East- Rajendra Nagar Ward
		South- Karamtar Ganga
		East- Bhagat Singh Nagar Ward
		West- Badhya Phulwariya
7	Lokmanya Tilak Nagar	North- Ramnagar Ward
		South- Jai Prakash Nagar Ward
		East- Gautam Buddh Nagar Ward
		West- Rajendra Nagar Ward
8	Govind Ballabh Pant Nagar	North- Jai Prakash Nagar Ward
		South- Badipur
		East- Deoria Barhaj Road
		West- Swatantrata Sangram Senani Banke Babu Nagar Ward
9	Shaheed Rampal Singh Nagar	North- Shivaji Nagar Ward
		South- Kuichwar and Karamtar Sher khan
		East- Sonadi Usra Tola
		West- Deoria Barhaj Road
10	Ram Nagar	North- Tekua
		South- Lokmanya Tilak Nagar Ward
		East-Azad Nagar Ward
		West- Bardiha Nathmal

Ward no.	Name of Ward	Extent of Ward
1	2	3
11	Rajendra Nagar	North-Kuiyan
		South-Swatantrata Sangram Senani Banke Babu Nagar Ward
		East-Lokmanya Tilak Nagar Ward
		West- Karaudi & Kuiyan
12	Jai Prakash Nagar	North- Lokmanya Tilak Nagar
		South- Govind Ballabh Pant Nagar
		East- Gandhi Nagar Ward
		West- Bhagat Singh Nagar Ward
13	Gandhi Nagar	North- Gautam Buddh Nagar Ward
		South-Nanda Nagar
		East-Banjariya Pipra Badai
		West- Jai Prakash Nagar Ward
14	Nanda Nagar	North- Gandhi Nagar Ward
		South-Shivaji Nagar Ward
		East-Shivaji Nagar Ward
		West- Ambedkar Nagar Ward

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.